



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2006/चैत्र 1, 1928

No. 111]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2006/CHAITRA 1, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2006

सा.का.नि. 172(अ)/आ.व./ईख.—केन्द्रीय सरकार ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उप-खण्ड (i) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो, से परामर्श करने के पश्चात् और 9 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 79.50 रुपये प्रति क्विंटल की मूल न्यूनतम कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 0.88 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अधधीन हो, के आधार पर एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 2006 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2005-2006 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं०	कोड नं०	फैक्ट्री का नाम	गन्ने का न्यूनतम मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में
1.	2.	3.	4.
<b>आन्ध्र प्रदेश</b>			
1.	23601 निजाम	दि निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, पो०आ० शंकरनगर, जिला निजामाबाद	83.90
2.	23901 चोदावरम	द चोदावरम कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० गोवाडा, विसाखापतनम-531023	92.70
3.	24301 विजयरामा	श्री विजयरामा गजपति कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० कोरूकोन्डा(भीमासिंधी), विशाखापतनम	92.70
4.	24501 भीमाडोले	द वेस्ट गोदावरी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, भीमाडोले, वेस्ट गोदावरी-534425 आंध्र प्रदेश	97.10
5.	24601 डेल्टा	श्री हनुमान कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० हनुमान जंक्शन, कृष्णा-524405	91.82

6.	25301 चित्तूर	द चित्तूर कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० सवातपल्ले, चित्तूर-517003	79.50
7.	34301 काल्लूर	श्री काकिताया सीमेन्ट, शुगर एंड केमिकल्स लि०, गांव पेरुनुन्वा, तालुक काल्लूर मंडल, जिला खम्माम- 507209	95.34
8.	25401 तिरुपति	श्री वेंकटेश्वर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो०आ० गजुला मांडयाम	79.50
9.	55401 नेलावोय	सागर शुगर एंड एलायड प्राडक्ट्स लि०, नेलावोय, गांव श्री रंगाराणापुरम मंडल, जिला चित्तूर	79.50
<b>हरियाणा</b>			
1.	01101 रोहतक	द हरियाणा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० रोहतक, रोहतक-124001	87.42
2.	01501 शाहबाद	शाहबाद कोआपरेटिव शुगर लि०, शाहबाद, मारखांडा, कुरुक्षेत्र-132155	90.06
3.	01601 पलवल	द पलवल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पलवल, फरीदाबाद-121101	87.42
4.	01801 यमुनानगर	द सरस्वती शुगर मिल्स, पो०आ० यमुनानगर, अम्बाला-135001	94.46
5.	42202 भदसोन	मै० पिक्काडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, भूना, जिला हिजार, हरियाणा	85.66
<b>गुजरात (दक्षिण)</b>			
1.	32101 वतारिया	श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, दसाद वतारिया, तालुका वाली, जिला भरुच	92.70
<b>कर्नाटक</b>			
1.	17203 समीरवाडी	द गोदावरी शुगर मिल्स लि०, पो०आ० समीरवाडी, तालुका मुडोल, बीजापुर-587316	91.82
2.	26201 मांडया	द मैसूर शुगर कोआपरेटिव लि०, पो०आ० मांडया, मांडया-571402	79.50
3.	27901 हेमवती	हेमवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० श्रीनिवासपुरा, चिन्नरायापल्ला, हसन-573116	79.50
4.	28101 चामुंडेश्वरी	श्री चामुंडेश्वरी शुगर लि०, पो०आ० भारती नगर, मांडया-571422	80.38
5.	28401 उगरखुर्द	द उगरखुर्द वर्क्स लि०, पो०आ० उगरखुर्द, बेलगांव-591316	96.22
6.	30902 बीएस	बन्नारी अम्मान शुगर लि०, यूनिट-2, गांव अलागांधी, कर्नाटक	85.66

7.	40701 इमामपुर	द नरांजा सहकारी साखर कारखाना लि०, जी०एन० नगर, इमामपुरा, जानवाडा, बीदर, कर्नाटक-585403	101.50
8.	49801 शमानुर	शमानुर शुगर लि०, दुग्गावती, तालुक हरपनहल्ली, जिला दावनगेरे, कर्नाटक	79.50
9.	49901 मक्कावल्ली	आईसीएल शुगर्स लि०, मक्कावल्ली, तालुक के०आर० पेट, जिला मांडया, कर्नाटक	79.50
10.	50201 मनोली	श्री रेणुका शुगर्स लि०, मनोली, तालुक सीनडट्टी, जिला बेलगांव, कर्नाटक	89.18
11.	52002 वेंकटेश्वर	वेंकटेश्वर पावर प्रोजेक्ट लि०, बेदाकिहाल, तालुक चिकोडी, जिला बेलगांव	93.58
12.	54201 गेम शुगर	गेम शुगर लि०, कुंडारगी, बिलिगी तालुक, जिला बागलकोट, कर्नाटक-587204	86.54
13.	54601 हीरेबेवानुर	दनयामयोगी श्री शिव कुमार स्वामीजी शुगर्स लि०, हीरेबेवानुर, तालुक इन्दी, जिला बीजापुर	96.22
14.	54701 भाल्की	द महात्मा गांधी सहकारी साखर कारखाना लि०, भाल्की, जिला बीदर, कर्नाटक	83.90
15.	55501 कोपा	एससीएम शुगर्स लि०, कोप्पा, मदुर तालुक, जिला मांडया	80.38
<b>मध्य प्रदेश</b>			
1.	09301 मुरैना	मुरैना मंडल सहकारी साखर कारखाना लि०, कैलारास, जिला मोरना-476224	79.50
2.	51701 खरगौन	जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल्स लि०, अरवारदेवला, जिला खरगौन	82.14
<b>मध्य महाराष्ट्र</b>			
1.	13701 मालेगांव	मालेगांव सहकारी साखर कारखाना लि०, मालेगांव बीके(शिवनगर), तालुका बारामती, पुणे-423203	98.86
2.	13901 थेउर	यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० थेउर, तालुका हवेली, पुणे-412110 महाराष्ट्र	96.22
3.	17801 पांडुरंग	पांडुरंग शुगर लि०, पो०आ० श्रीपुर, तालुक मालसिरस, शोलापुर-413112 महाराष्ट्र	105.90
<b>दक्षिण महाराष्ट्र</b>			
1.	15601 विश्वास	विश्वास सहकारी साखर कारखाना लि०, यशवंतनगर, पोस्ट चिखाली, तालुका शिराला, जिला सांगली-415408	99.74
2.	53007 करनवाडी	सर्वोदया सहकारी साखर कारखाना लि०, करनवाडी, तालुका वालवा, जिला सांगली	90.94
3.	14901 कृष्णा	कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि०, रिथारे, बुदरूक, पो०आ० शिवनगर, जिला सतारा-415108	107.66

उत्तर महाराष्ट्र			
1.	19601 बासमथनगर	पुर्णा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० बासमथनगर, पारमनी-431512 महाराष्ट्र	97.98
2.	20501 शिरपुर	शिरपुर शीतलराव सहकारी साखर कारखाना लि०, दहीवाड, तालुका शिरपुर, जिला धुले	79.50
3.	37501 शमशेरपुर	मै० पुष्प दंतेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, शमशेरपुर, तालुका नांदुरबार, जिला धुले, महाराष्ट्र	79.50
4.	39101 सूर्यानगर	श्रीमती सूर्यकांता पाटी जयवंतराव पाटील सहकारी साखर कारखाना लि०, सूर्यानगर, पो० एवं तालुका हदगांव, जिला नांदेड	97.10
5.	49601 भालवानी	चन्द्रभागा सहकारी साखर कारखाना लि०, बी. हलवानी, तालुका पंढारपुर, जिला शोलापुर-413004	97.10
6.	51301 पानगांव	पन्नागेश्वर शुगर मिल्स लि०, पानगांव, तालुका रेनापुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	94.46
7.	55201 दोकारे	आदोवासो सहकारी साखर कारखाना नानापुर, नांदुरबार विभाग लि०, दिलारे तालुका नानापुर, जिला नांदुरबार, महाराष्ट्र	100.62
8.	55001 पारगांव	भीमा शंकर शुगर मिल्स लि०, परगांव, टीक्यू वाशी, जिला ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र-431126	79.50
सौराष्ट्र			
1.	11301 तलाला	श्री तलाला टी.एस. खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० तलाल(गिर), जुनागढ़-362150	83.90
पंजाब			
1.	00901 धुरी	भगवानपुरा शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि०, पो०आ० धुरी, जिला संगरूर-148024	79.50
2.	01001 फगवाड़ा	ओसवाल एग्री शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि०, जी०टी० रोड, पो०आ० फगवाड़ा, कपूरथला	88.30
3.	31901 नकोदर	नकोदर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नकोदर, जालंधर	87.42
4.	33501 अजनाला	द अजनाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, भालापींड, तहसील अजनाला-141302, जिला अमृतसर	83.02
5.	33701 फरीदकोट	द फरीदकोट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, रोड़ी, छतसिंहवाला, पो०आ० और जिला फरीदकोट-151203	86.54
6.	34201 मुकरियां	ओसवाल शुगरर्स लि०, जी०टी० रोड, मुकरियां-144221, जिला होशियारपुर	90.94
7.	36001 बाबा बकाला	राणा शुगरर्स लि०, गांव बातूर बकाला, तहसील बाबा बकाला-143202, अमृतसर	83.90

8.	42001 दासुया	गुरु तेग बहादुर शुगरर्स, गांव रांधवा, तहसील दासुया, जिला होशियारपुर	83.90
9.	42301 अमलोह	नाहर शुगर एंड एलायड इंडस्ट्रीज, अमलोह, तहसील नाभा, जिला पटियाला पंजाब	89.18
<b>उड़ीसा</b>			
1.	32401 नयागढ़	द कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, स्थान पो०आ० नयागढ़, जिला पुरी, उड़ीसा	79.50
<b>पांडिचेरी</b>			
1.	31001 पांडिचेरी	द पांडिचेरी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, लिगारेड्डुपलायम काट्टेरिकुप्पम, पांडिचेरी-605503	85.66
<b>तमिलनाडु</b>			
1.	25801 पुगलुर	ई०आई०डी० पैरी (इंडिया) एंड क०, पो०आ० पुगलुर शुगर फैक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली	79.50
2.	28602 लालगुडी	कोठारी शुगरर्स एंड केमिकल्स लि०, कात्तूर, लालगुडी, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	88.30
3.	30201 थिरु अरूरन	द थिरु अरूरन शुगरर्स लि०, कोल्लुमनगुडी गांव में पेरालम/अगरथिरुमलम फिरका में नन्नीलम तालुक, नागाई क्वैद-ई-मिल्लेथ जिला	82.14
4.	30301 कावेरी	कावेरी शुगरर्स एंड केमिकल्स लि०, पेट्टैवयासलाई, जिला त्रिचुरापल्ली	83.02
5.	30401 नेल्लीकुप्पम	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि०, नेल्लीकुप्पम, साउथ आरकोट, तमिलनाडु	79.50
6.	30501 मुंडियापक्कम	राजश्री शुगरर्स एंड केमिकल्स लि०, मुंडियापक्कम, गांव वेल्लूपुरम, जिला साउथ आरकोट	90.94
7.	30701 पोन्नी	पोन्नी शुगरर्स एंड केमिकल्स लि०, पल्लीपलायम, तालुक तिरुचेनकोड, जिला सलेम	90.06
8.	30801 शक्ति	शक्ति शुगरर्स लि०, शक्तिनगर, पो०आ० इरोड आर०एम०एस०, जिला पेरियार	80.38
9.	30802 शिवगंगा	शक्ति शुगरर्स लि०, तालुका शिवगंगा, जिला पासुमपन, मथुरैलिंगम	84.78
10.	30901 बन्नारी अम्मान	बन्नारी अम्मान शुगरर्स लि०, गांव अलाथुकोम्बई, सत्यामंगलम, जिला पेरियार	84.78
11.	32601 घरानी	घरानी शुगरर्स एंड केमिकल्स लि०, घरानीनगर, वासुदेवनानुर, ता० शिवगिरी, थिरुनेलवेली	81.26
12.	50501 अरंथानगी	ई०आई०डी० पैरी (इंडिया) लि०, पुडुकोट्टाई शुगर फैक्ट्री, अरंथानगी तालुक, पुडुकोट्टाई जिला, कुरुमबुर- 614622	83.02

873 GI/06-2

पश्चिमी उत्तर प्रदेश			
1.	02201 मोहिउद्दीनपुर	द यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि० यूनिट - मोहिउद्दीनपुर - 201205, जिला - मेरठ	85.66
2.	02202 सखोती टांडा	द यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि० यूनिट - मोहिउद्दीनपुर - 201205, जिला - मेरठ	84.78
3.	02205 सहारनपुर	यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट-सहारनपुर पोस्ट-सहारनपुर-247001, जिला - सहारनपुर-247001	79.50
4.	02801 मोरना	द गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, मोरना द जनसथ, जिला - मुजफ्फरनगर-251316	87.42
5.	02902 मवाना	मवाना शुगर वर्क्स पोस्ट - मवाना, मेरठ - 250 401	89.18
6.	03001 देवबंद	गंगेश्वर लि०, पोस्ट - देवबंद जिला - सहारनपुर - 247554	90.06
7.	03301 खतौली	द त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, शुगर यूनिट-द अपर इंडिया शुगर मिल्स, पोस्ट-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर- 251203	89.18
8.	03401 मंसूरपुर	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि० पोस्ट - मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर - 251203	84.78
9.	03701 सिंभावली	द सिंभावली शुगर मिल्स लि० पोस्ट - सिंभावली, गाजियाबाद-245207	86.54
10.	47701 टोडापुर	शाकम्भरी शुगर एलाइड इंडस्ट्रीज लि० टोडापुर(राघर), जिला-सहारनपुर	83.02
मध्य उत्तर प्रदेश			
1.	02208 बिजनौर	द यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि० यूनिट-बिजनौर, जिला बिजनौर- 246701	84.78
2.	05901 सिवहर	अपर गंगेश शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि० पोस्ट-सिवहर, जिला-बिजनौर-246746	89.18
3.	06701 निओली	द निओली शुगर फैक्ट्री मनपुरनगरिया, पोस्ट-निओली, एटा-207402	79.50
4.	06801 हरगाँव	द अवध शुगर मिल्स लि० पोस्ट-हरगाँव, सीतापुर-261121	91.82
5.	31801 घाटमपुर	घाटमपुर शुगर कं० लि० तहसील-घाटमपुर, जिला-कानपुर, कानपुर	79.50
6.	34501 धनौरा	ओसवाल एग्री मिल्स लि० धनौरा, तह०-हासनपुर, जिला - मुरादाबाद	83.02
7.	47801 द्वारिकेश	द्वारिकेश शुगर इंड० लि० बुंदकी, जिला - बिजनौर	92.70
8.	48301 जे०बी०गंज	घाघरा शुगर लि०, यूनिट - गोमती शुगर मिल्स अजबपुर, लखीमपुर खीरी-261 505	91.82

9.	48501 रूमापुर	किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि० शुगर यूनिट - रूमापुर, तहसील-शाहबाद, हरदोई जिला	84.78
<b>पूर्वी उत्तर प्रदेश</b>			
1.	02215 बुड़वाल	द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि० बुंदकी, जिला - बिजनौर	79.50
2.	02216 जरवाल	यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, पो०आ० जरवाल रोड, यूनिट जरवाल रोड, बहराइच-271901 उत्तर प्रदेश	79.50
3.	02218 पिपराइच	घाघरा शुगर लि०, यूनिट-गोमती शुगर मिल्स अजबपुर, लखीमपुर खीरी - 261 505	79.50
4.	02219 सिसवा बाजार	यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, पो०आ० सिसवा बाजार, यूनिट सिसवा बाजार, गोरखपुर-273253 उत्तर प्रदेश	79.50
5.	02220 खड्डा	द यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट-खड्डा पोस्ट-राजाबाजार, खड्डा, जिला - पडरौना-273415	79.50
6.	02222 रामकोला (कोर्प)	द यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि० यूनिट-रामकोला, पोस्ट-रामकोला, जिला - पडरौना-274701	79.50
7.	03002 रामकोला	गंगेश्वर लि०, यूनिट - रामकोला पोस्ट - रामकोला, जिला - कुशीनगर	87.42
8.	06301 गोला	बजाज हिन्दुस्तान लि०, पोस्ट - गोलागोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी - 262 802	91.82
9.	06501 पालियाकलां	बजाज हिन्दुस्तान लि०, पोस्ट - पालियाकलां लखीमपुर खीरी - 262902	85.66
10.	06902 दरियापुर	नंदगंज सिहोरी शुगर कं० लि० यूनिट-दरियापुर, पोस्ट-दरियापुर, जिला-रायबरेली-229001	80.38
11.	07901 कैप्टनगंज	द कनौरिया शुगर एंड जनरल मैनु० कं० लि० पोस्ट-कैप्टनगंज, देवरिया -274303	82.14
12.	08101 सिवराही	द यूनाइटेड प्रोविसेस शुगर कम्पनी लि० पोस्ट-सिवराही, जिला - पडरौना-274406	83.90
13.	08201 बैतलपुर	यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट-बैतलपुर पोस्ट-बैतलपुर, जिला - देवरिया-274406	79.50
14.	08501 वाल्टरगंज	गोविन्दनगर शुगर लि० पोस्ट-वाल्टरगंज, जिला - बस्ती-272 182	88.30
15.	08502 बस्ती	द बस्ती शुगर मिल्स कं० लि० पोस्ट/जिला-बस्ती-272003	87.42
16.	08901 बलरामपुर	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, पोस्ट-बलरामपुर गोंडा - 271201	90.94
17.	09001 तुलसीपुर	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, तुलसीपुर फैक्ट्री ब्रांच पोस्ट - तुलसीपुर, जिला - गोंडा-271208	84.78
18.	54501 हैदरगढ़	हैदरगढ़ चीनी मिल्स पोखरा, पोस्ट - हैदरगढ़, बाराबंकी	90.06

उत्तरांचल			
1.	49201 लिबरहेड़ी	उत्तम शुगर मिल्स लि० ग्राम - लिबरहेड़ी, जिला - हरिद्वार	90.06
पश्चिम बंगाल			
1.	23401 पलासेय	रामलनुगर केन एंड शुगर कं० लि०, पो०आ० पलासेय, नांदिया-741157	79.50

[सं. 3(5)/2004-एस.पी.]

डॉ. जॉय आई. चीनाथ, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**  
(Department of Food and Public Distribution)

**ORDER**

New Delhi, the 22nd March, 2006

**G.S.R. 172(E)/Ess. Com./Sugarcane.**— In exercise of the powers conferred by clause 3 of Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, Bodies and Associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 79.50 per quintal linked to a basic recovery of 9% sugar subject to a premium of Rs. 0.88 for every 0.1% point increase in the recovery above that level hereby fixes the price specified in column (4) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year **2005-2006 ending the 30th September, 2006** subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order

**SCHEDULE**

Serial Number	Code Number	Name of the factory	Minimum sugarcane price in Rupees per quintal
(1)	(2)	(3)	(4)

**ANDHRA PRADESH**

1	23601 Nizam	Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Shakkarnagar, Nizamabad	83.90
2	23901 Chodavaram	The Chodavaram Cooperative Sugar Ltd., P.O. Govada, Visakhapatnam -531023.	92.70
3	24301 Vijayarama	Sree Vijayarama Gajapathi Cooperative Sugar Ltd., P.O. Korukonda (Bhimasindhi), Visakhapatnam.	92.70
4	24501 Bhimadole	The West Godavari Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhimadole, West Godavari-534425, Andhra Pradesh.	97.10
5	24601 Delta	Sri Hanuman Cooperative Sugar Ltd., P.O. Hanuman Junction, Krishna - 524405.	91.82
	25301 Chittoor	The Chittoor Cooperative Sugar Ltd., P.O. Sivalyalla, Chittoor - 517003	79.50
	25401 Tirumati	Sri Venkateshwara Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Gaiula Mandyam.	79.50



8	34301 Kallur	Shri Kakitiya Cement, Sugars & Chemicals Ltd., Village Peruvuncha, Taluka. Kallur Mandal, Distt. Khammam-507209	95.34
9	55401 Nelavoy	Sagar Sugars & Allied Products Ltd., Nelavoy Village, Sri Ranganapuram Mandal, District Chittoor.	79.50

**HARYANA**

1	01101 Rohtak	The Haryana Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Rohtak, Rohtak-124001.	87.42
2	01501 Shahbad	Shahbad Cooperative Sugar Ltd., Shahbad, Markhanda, Kurukshetra-132155	90.06
3	01601 Palwal	The Palwal Cooperative Sugar Mills Ltd., Palwal, Faridabad - 121101.	87.42
4	01801 Yamunanagar	The Saraswati Sugar Mills, P.O. Yamunanagar, Ambala-135001	94.46
5	42202 Bhadson	M/s. Piccadily Agro Industries Ltd., Bhuna, District Hissar, Haryana.	85.66

**GUJARAT (SOUTH)**

1	32101 Vataria	Shree Ganesh Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Dasad Vataria, Taluka Vali, Distt. Bharuch	92.70
---	------------------	--	-------

**KARNATAKA**

1	17203 Sameerwadi	The Godavari Sugar Mills Ltd., P.O. Sameerwadi, Tal. Mudhol, Bijapur-587316	91.82
2	26201 Mandya	The Mysore Sugar Cooperative Ltd., P.O. Mandya, Mandya-571402	79.50
3	27901 Hemavati	Hemavati Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., P.O. Srinivasapura, Chinnarayapatna, Tq. Hassan-573116.	79.50
4	28101 Chamundeshwari	Sri Chamundeshwari Sugar Ltd., P.O. Bharathi Nagar, Mandya-571422	80.38
5	28401 Ugarkhurd	The Ugarkhurd Works Ltd., P.O. Ugarkhurd, Belgaum-591316	96.22
6	30902 BAS	Bannari Amman Sugar Ltd., Unit-II, Village Alangandhi, Karnataka.	85.66
7	40701 Imampur	The Naranja Sahakari Sakhare Karkhane Ltd., G.N. Nagar, Imampura, Janwada, Bidar, Karnataka - 585403	101.50
8	49801 Shamanur	Shamnur Sugar Ltd., Duggawati, Taluk Harapanahalli, District Dawangere, Karnataka.	79.50
9	49901 Makkavalli	ICL Sugars Ltd., Makkavalli, Taluk K.R. Pet, District Mandya, Karnataka.	79.50
10	50201 Manoli	Sri Renuka Sugars Ltd., Manoli, Taluk Saundatti, District Belgaum, Karnataka.	89.18
11	52002 Venkateshwara	Venkateshwara Power Project Ltd., Bedakihal, Taluk Chikodi, District Bengaluru.	93.58

873 GI/06-3

12	54201 Gem Sugar	Gem Sugar Ltd., Kundargi, Biligi Taluk, District Bagalkot, Karnataka-587204	86.54
13	54601 Hirebevanur	Dnyamyogi Shri Shiv Kumar Swamiji Sugars Ltd., Hirebenur, Taluk Indi, District Bijapur.	96.22
14	54701 Bhalki	The Mahatma Gandhi Sahakari Sakhare Karkhane, Bhalki, District Bidar, Karnataka.	83.90
15	55501 Kopa	SCM Sugars Ltd., Koppa, Madur Taluk, District Mandya	80.38

**MADHYA PRADESH**

1	09301 Morena	Morena Mandal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kailaras, Distt. Morena-476224	79.50
2	51701 Khargone	Jawaharlal Nehru Sahakari Soot Mills Ltd., arvardevla, District Khargone	82.14

**CENTRAL MAHARASHTRA**

1	13701 Malegaon	Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Malegaon BK (Shivnagar), Tal. Baramati, Pune-423203	98.86
2	13901 Theur	Yashwant Sahakari Sakhar Khrkhana Ltd., P.O. Theur, Taluk Haveli, Pune-412110, Maharashtra	96.22
3	17801 Pandurang	Pandurang Sugar Ltd., P.O. Shreepur, Taluk Malshiras, Solapur-413112, Maharashtra	105.90

**SOUTH MAHARASHTRA**

1	14901 Krishna	Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rethare Budruk, P.O. Shivnagar, District Satara-415108	107.66
2	15601 Vishwas	Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwatnagar, Post Chikhali, Taluka Shirala, Distt. Sangli-415408	99.74
3	53007 Karanwadi	Sarvodaya SSK Ltd., Karandwadi, Tk. Walwa, District Sangli.	90.94

**NORTH MAHARASHTRA**

1	19601 Basmathnagar	Purna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Basmathnagar, Parbhani-431512, Maharashtra	97.98
2	20501 Shirpur	Shirpur Shetlaro Sahakar Sakhar Karkhana Ltd., Dahiwad, Tal. Shirpur, District Dhule.	79.50
3	37501 Samsherpur	M/s. Pushp Danteshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shamsherpur, Taluk Nandurbar, District Dhule, Maharashtra	79.50
4	39101 Suryanagar	Smt. Suryakanta Patil Jaiwantrao Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Surya Nagar, Post and Taluk Hadgaon, Distt. Nanded,	97.10
5	49601 Bhalwani	Chandrabhaga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., B. Halwani, Taluka Pandharpur, Distt. Sholapur- 413 04	97.10
6	51301 Pangaon	Pannageshwar Sugar Mills Ltd., Pangaon, Taluk Renapur, District Latur, Maharashtra	94.46
7	55001 Pargaon	Bhima Shankar Sugar Mills Ltd., Pargaon, TQ Washi, District Osmanabad, Maharashtra - 431126	79.50
8	55201 Dokare	Aadowaso Sahakari Sakhar Karkhana Nanapur, Nandurbar Vibhag Ltd., Dilare Tal. Nanapur, District Nandurbar.	100.62

**SAURASHTRA**

1	11301 Talala	Shree Talala T.S. Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Talal (GIR), Junagadh – 362150.	83.90
---	-----------------	--	-------

**PUNJAB**

1	00901 Dhuri	Bhagwanpura Sugar Mills Cooperative Ltd., P.O. Dhuri, Sangrur – 148024	79.50
2	01001 Phagwara	Oswal Agro Sugar Mills Cooperative Ltd., G.T. Road, P.O. Phagwara, Kapurthala 144.	88.30
3	31901 Nakodar	Nakodar Cooperative Sugar Mills Ltd., Nakodar, Jalandar.	87.42
4	33501 Ajnala	The Ajnala Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhalapind, Teh. Ajnala-143102, Distt. Amritsar	83.02
5	33701 Faridkot	The Faridkot Cooperative Sugar Mills Ltd., Rori, Chatsinghwa, P.O. & Distt. Faridkot-151203	86.54
6	34201 Mukerian	Oswal Sugars Ltd., G.T. Road, Mukerian-144221, Distt. Hoshiarpur	90.94
7	36001 Baba Bakala	Rana Sugars Ltd., Village Batur Bakala, Taluka Baba Bakala-143202, Amritsar	83.90
8	42001 Dasuya	Guru Teg Bahadur Sugars, Village Randhwa, Tehsil Dasuya, District Hoshiarpur	83.90
9	42301 Amloh	Nahar Sugar & Allied Industries, Amloh, Tah. Nabha, Dist. Patiala, Punjab.	89.18

**ORISSA**

1	32401 Nayagarh	The Cooperative Sugar Industry Ltd., At P.O. Nayagarh District Puri, Orissa.	79.50
---	-------------------	---	-------

**PONDICHERRY**

1	31001 Pondicherry	The Pondicherry Cooperative Sugar Mills Ltd., Lingareddupalayam Katterikuppam, Pondicherry-605503.	85.66
---	----------------------	---	-------

**TAMIL NADU**

1	25802 Puglur	E.I.D Parry (India) & Co., P.O. Pugalur Sugar Factory, Distt. Tiruchirappalli	79.50
2	28602 Lalgudi	Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Kattur, Lalgudi, Distt. Tiruchirappalli, Tamil Nadu.	88.30
3	30201 Thiru Arooran	The Thiru Arooran Sugars Ltd., Kollumangudi Village in Peralam/Agarathirumalam Firka in Nannilam Taluk, Nagai Quid-e-Milleth Distt.	82.14
4	30301 Cauvery	Cauvery Sugars & Chemicals Ltd., Pettaivayasalai, District Tiruchirappalli.	83.02
5	30401 Nellikuppam	EID Parry (India) Ltd., Nellikuppam, South Arcot. Tamil Nadu.	79.50
6	30501 Mundiappakkam	Rajashree Sugars & Chemicals Ltd., Mundiappakkam, Village Villupuram, District South Arcot	90.94

87355/06-4

7	30701 Ponni	Ponni Sugars & Chemicals Ltd., Pallipalayam, Taluk Tiruchencode, District Salem.	90.06
8	30801 Sakthi	Sakthi Sugars Ltd., Sakthinagar, P.O. Erode R.M.S., District Periyar.	80.38
9	30802 Shivganga	Shakti Sugars Ltd., Tal. Sivganga, District Pasumpan, Muthurralingam	84.78
10	30901 Bannari Amman	Bannari Amman Sugars Ltd., Village Alathukombai, Sathyamanglam, District Periyar.	84.78
11	32601 Dharani	Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Dharaninagar, Vasudevanalur, Tal. Sivagiri, Thirunelveli	81.26
12	50501 Aranthangi	E.I.D Parry (India) Ltd., Pudukottai Sugar Factory, Aranthangi Taluk, Pudukottai District, Kurumbur – 614622	83.02

**WEST UTTAR PRADESH**

1	02201 Mohiuddinpur	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Mohiuddinpur-201205, Distt. Meerut	85.66
2	02202 Sakhoti Tanda	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Mohiuddinpur, Meerut – 201205	84.78
3	02205 Saharanpur	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., Unit Saharanpur, P.O.Saharanpur-247001, Distt. Saharanpur-247001.	79.50
4	02801 Morna	The Ganga Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Morna, The Jansath, Distt. Muzaffarnagar-251316	87.42
5	02902 Mawana	Mawana Sugar Works, P.O. Mawana, Meerut – 250401.	89.18
6	03001 Deoband	Gangeshwar Ltd., P.O.Deoband, Distt. Saharanpur-247554	90.06
7	03301 Khatauli	The Triveni Engineering Works Ltd., Sugar Unit: The Upper India Sugar Mills, P.O.Khatauli, Distt. Muzaffarnagar-251203	89.18
8	03401 Mansurpur	Mansurpur Sugar Mills Ltd., P.O. Mansurpur, Muzaffarnagar- 251203	84.78
9	03701 Simbhaoli	The Simbhaoli Sugar Mills Ltd., P.O.. Simbhaoli, Ghaziabad-245207	86.54
10	47701 Todarpur	Shkumbhari Sugars Allied Industries Ltd. at Todarpur (Raghar) District Saharanpur.	83.02

**CENTRAL UTTAR PRADESH**

1	02208 Bijnor	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Bijnor, Distt. Bijnor-246701	84.78
2	05901 Seohara	Upper Ganges Sugar & Industries Ltd., P.O. Seohara, Distt. Bijnor-246746	89.18
3	06701 Neoli	The Neoli Sugar Factory, Manpurnagar, P.O. Neoli, Etah – 207402	79.50
4	06801 Hargaon	The Oudh Sugar Mills Ltd., P.O.Hargaon, Distt. Sitapur-261121	91.82
5	31801 Ghatampur	Ghatampur Sugar Co. Ltd., Teh. Ghatampur, Distt. Kanpur, Kanpur.	79.50
6	34501 Dhanaura	Oswal Agro Mills Ltd., Dhanaura, Teh. Hasanpur, District Moradabad	83.02

7	47801 Dwarikesh	Dwarikesh Sugar Ind. Ltd., Bundki, Distt. Bijnor	92.70
8	48301 J.B. Ganj	Ghaghara Sugar Ltd., unit: Gomti Sugar Mills, Ajabpur, Lakhimpur Kheri – 261505	91.82
9	48501 Rupapur	Kitply Industries Ltd., Sugar Unit : Rupapur, Tehsil Shahbad, Hardoi District.	84.78

**EAST UTTAR PRADESH**

1	02215 Burhwal	Dwarikesh Sugar Ind. Ltd., Bundki, Distt. Bijnor	79.50
2	02216 Jarwal	U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Jarwal Road, (Unit Jarwal Road), Bahraich-271901, U.P.	79.50
3	02218 Pipraich	Ghaghara Sugar Ltd., unit: Gomti Sugar Mills, Ajabpur, Lakhimpur Kheri – 261505	79.50
4	02219 Siswa Bazar	U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Siswa Bazar, (Unit Siswabazar), Gorakhpur-273253	79.50
5	02220 Khadda	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit : Khadda, P.O. Rajabazar, Khadda, District Padrauna-273415.	79.50
6	02222 Ramkola (Corp)	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Ramkola, P.O. Ramkola, District Padrauna-274701.	79.50
7	03002 Ramkola	Gangeshwar Ltd., Unit. Ramkola, P.O. Ramkola, Distt. Kushinagar.	87.42
8	06301 Gola	Bajaj Hindustan Ltd., P.O. Golagokarannath, Lakhimpur Kheri – 262802	91.82
9	06501 Paliakalan	Bajaj Hindustan Ltd., P.O. Paliakalan, Lakhimpur Kheri – 262902	85.66
10	06902 Daryapur	Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., Unit: Daryapur, Post Daryapur, Distt. Rai Bareilly-229 001.	80.38
11	07901 Captainganj	The Kanoria Sugar & General Mfg. Co. Ltd., P.O. Captainganj, Deoria – 274303.	82.14
12	08101 Seorahi	The United Provinces Sugar Company Ltd., P.O. Seorahi, Distt. Padrauna-274406	83.90
13	08201 Baitalpur	U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Baitalpur, P.O. Baitalpur, District Deoria-274406	79.50
14	08501 Walterganj	Govindnagar Sugar Ltd., P.O. Walterganj, Distt. Basti-272182.	88.30
15	08502 Basti	The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. & Distt. Basti-272003	87.42
16	08901 Balrampur	Balrampur Chini Mills Ltd., P.O. balrampur, Gonda – 271201	90.94
17	09001 Tulsipur	Balrampur Chini Mills Ltd., Tulshipur Factory Branch, P.O. Tulsipur, Distt. Gonda-271208.	84.78
18	54501 Haidergarh	Haidergarh Chini Mills, Pokhra, P.O. Haidergarh, Barabanki	90.06

**UTTARANCHAL**

1	49201 Libberheri	Uttam Sugar Mills Ltd., Village Libberhari, District Haridwar.	90.06
---	---------------------	---	-------

**WEST BENGAL**

1	23401 Plassey	Ramlugger cane & Sugar Co. Ltd., P.O. Plassey, Nandia-741157	79.50
---	------------------	---	-------

[No. 3(5)/2004-SP]

Dr. JOY I. CHEENATH, Jt. Secy.